



SET-4

Series %BAB%

प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code 346
 रोल नं.
Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 7 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 25 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 7 printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 25 questions.
- Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

कराधान

TAXATION

निर्धारित समय : $1\frac{1}{2}$ घण्टे

अधिकतम अंक : 30

Time allowed : $1\frac{1}{2}$ hours

Maximum Marks : 30



सामान्य निर्देश:

- (i) कृपया निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए ।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **तीन** खण्डों में विभाजित है, अर्थात् **खण्ड क**, **खण्ड ख** और **खण्ड ग** ।
- (iii) **खण्ड क** – 5 अंकों का है और इसमें रोज़गार कौशल पर 6 प्रश्न हैं ।
 (क) प्रश्न संख्या 1 से 4 तक **एक** अंक के प्रश्न हैं । किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
 (ख) प्रश्न संख्या 5 और 6 **दो** अंकों के प्रश्न हैं । किसी **एक** प्रश्न का उत्तर दीजिए ।
- (iv) **खण्ड ख** – 17 अंकों का है और इसमें विषय विशिष्ट कौशल पर 16 प्रश्न हैं ।
 (क) प्रश्न संख्या 7 से 13 तक **एक** अंक के प्रश्न हैं । किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
 (ख) प्रश्न संख्या 14 से 18 तक **दो** अंकों के प्रश्न हैं । किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
 (ग) प्रश्न संख्या 19 से 22 तक **तीन** अंकों के प्रश्न हैं । किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
- (v) **खण्ड ग** – 8 अंकों का है और इसमें 3 योग्यता-आधारित प्रश्न हैं ।
 प्रश्न संख्या 23 से 25 तक **चार** अंकों के प्रश्न हैं । किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
- (vi) संबंधित खण्डों में दिए गए निर्देशों के अनुसार कीजिए ।
- (vii) आबंटित अंकों का उल्लेख प्रत्येक खण्ड/प्रश्न के सामने किया गया है ।

खण्ड क (रोज़गार कौशल)

(3+2=5 अंक)

दिए गए 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

3×1=3

- | | |
|--|---|
| 1. 'उद्यमी' को परिभाषित कीजिए । | 1 |
| 2. 'पहल' क्या है ? | 1 |
| 3. हरित कौशल के प्रमुख आयामों की सूची बनाइए । | 1 |
| 4. हमें हरित कौशलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? | 1 |



General Instructions :

- (i) Please read the instructions carefully.
- (ii) This question paper is divided into **three** sections, viz. – **Section A, Section B and Section C.**
- (iii) **Section A** is of **5** marks and has **6** questions on *Employability Skills*.
 - (a) Questions number **1** to **4** are **one** mark questions. Attempt any **three** questions.
 - (b) Questions number **5** and **6** are **two** marks questions. Attempt any **one** question.
- (iv) **Section B** is of **17** marks and has **16** questions on *Subject Specific Skills*.
 - (a) Questions number **7** to **13** are **one** mark questions. Attempt any **five** questions.
 - (b) Questions number **14** to **18** are **two** marks questions. Attempt any **three** questions.
 - (c) Questions number **19** to **22** are **three** marks questions. Attempt any **two** questions.
- (v) **Section C** is of **8** marks and has **3** *Competency-Based Questions*.
Questions number **23** to **25** are **four** marks questions. Attempt any **two** questions.
- (vi) Do as per the instructions given in the respective sections.
- (vii) Marks allotted are mentioned against each section/question.

SECTION A **(Employability Skills)**

(3+2=5 marks)

Answer any **3** questions out of the given **4** questions.

3×1=3

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Define 'Entrepreneur'. | 1 |
| 2. | What is 'initiative' ? | 1 |
| 3. | List the main dimensions of green skills. | 1 |
| 4. | Why do we need green skills ? | 1 |



दिए गए 2 प्रश्नों में से किसी 1 प्रश्न का उत्तर दीजिए ।

1×2=2

5. एक उद्यमी की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । 2
6. पर्यावरण की सुरक्षा में हरित कार्यों की भूमिका का उल्लेख करने वाले कोई चार बिन्दु दीजिए । 2

खण्ड ख
(विषय विशिष्ट कौशल)

(5+6+6=17 अंक)

दिए गए 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

5×1=5

7. वैकल्पिक न्यूनतम कर क्या है ? 1
8. ए.एम.टी. क्रेडिट को आप कितने वर्षों तक आगे ले जा सकते हैं ? 1
9. वेतन के सम्बन्ध में स्रोत पर कर कटौती के लिए कौन-सी फॉर्म संख्या लागू होती है ? 1
10. अपनी चौथी तिमाही की स्रोत पर कर कटौती की रिटर्न जमा करने के कितने दिनों के पश्चात्, नियोक्ता को कर्मचारी को स्रोत पर कर कटौती प्रमाण-पत्र देना चाहिए ? 1
11. भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि को लागू हुआ था ? 1
12. वस्तु एवं सेवा कर के प्रवर्तन को अनुशंसित करने वाले कार्य दल का मुखिया कौन था ? 1
13. अन्तरा-राज्यीय क्रय पर किस प्रकार के वस्तु एवं सेवा कर लगाए जाते हैं ? 1

दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

3×2=6

14. वैकल्पिक न्यूनतम कर के भुगतान से छूट किन्हीं प्राप्त है ? 2
15. यदि कर कटौती की गई है परन्तु आदाता की अन्तिम कर देयता शून्य अथवा स्रोत पर कर कटौती से कम है, तो क्या किया जा सकता है ? 2
16. फॉर्म 26 ए.एस. में स्रोत पर कर कटौती को नहीं दर्शाए जाने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं ? 2
17. सिन टैक्स के तीन उदाहरण दीजिए । 2
18. वस्तु एवं सेवा कर के तीन घटक क्या हैं ? 2



Answer any 1 question out of the given 2 questions.

1×2=2

5. State any two characteristics of an entrepreneur. 2
6. Give any four points that state the role of green jobs in safeguarding the environment. 2

SECTION B

(Subject Specific Skills)

(5+6+6=17 marks)

Answer any 5 questions out of the given 7 questions.

5×1=5

7. What is Alternate Minimum Tax ? 1
8. For how many years can you carry forward AMT credit ? 1
9. Which form number is applicable for TDS in respect of salary ? 1
10. In how many days of filing their fourth quarter TDS returns, should the employer issue TDS certificate to the employee ? 1
11. On which date was GST implemented in India ? 1
12. Who headed the task force that recommended the introduction of GST ? 1
13. Which are the types of GST levied on intra-state purchases ? 1

Answer any 3 questions out of the given 5 questions.

3×2=6

14. Who are exempted from payment of Alternate Minimum Tax ? 2
15. What can be done if tax is deducted but the payee's ultimate tax liability is zero or less than the amount of TDS ? 2
16. What can be the possible reasons for TDS not reflecting in form 26AS ? 2
17. Give three examples of the sin tax. 2
18. What are the three components of GST ? 2



दिए गए 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

2×3=6

19. आयकर अधिनियम की धारा 115 जे.सी. के प्रावधानों की चर्चा कीजिए । 3
20. स्रोत पर कर कटौती तथा अग्रिम कर भुगतान में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 3
21. वस्तु एवं सेवा कर के किन्हीं तीन लाभों को समझाइए । 3
22. आई.जी.एस.टी. क्या है ? 3

खण्ड ग

(योग्यता-आधारित प्रश्न)

(2×4=8 अंक)

दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

23. वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर को समझाइए । 4
24. स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्यों की चर्चा कीजिए । 4
25. वस्तु एवं सेवा कर 'संयोजन योजना' क्या है ? वस्तु एवं सेवा कर 'संयोजन योजना' की सीमा क्या है ? 4



Answer any 2 questions out of the given 4 questions.

2×3=6

- | | | |
|------------|--|----------|
| 19. | Discuss the provisions of Section 115JC of the Income Tax Act. | 3 |
| 20. | Distinguish between TDS and advance payment of tax. | 3 |
| 21. | Explain any three benefits of GST. | 3 |
| 22. | What is IGST ? | 3 |

SECTION C

(Competency-Based Questions)

(2×4=8 marks)

Answer any 2 questions out of the given 3 questions.

- | | | |
|------------|---|----------|
| 23. | Explain the Tax rate under Alternate Minimum Tax. | 4 |
| 24. | Discuss the duties of the person deducting tax at source. | 4 |
| 25. | What is GST 'Composition Scheme' ? What is the GST 'Composition Scheme' Limit ? | 4 |